

CORPORATE OFFICE

8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector 16A, Noida - 201301, U.P., India T: +91 120 4308100 | F: +91 120 4311010-11 W: www.trivenigroup.com

#### By E-filing

Sub: Notice of 84th Annual General Meeting & E-voting published in the Newspapers			
STOCK CODE: 532356	STOCK CODE: TRIVENI		
MUMBAI – 400 001.	MUMBAI - 400 051.		
Dalal Street, Fort,	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),		
Rotunda Building, P.J. Tower,	Plot No. C/1, G Block,		
1 <sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,	Exchange Plaza, 5th Floor,		
BSE Limited,	National Stock Exchange of India Ltd.,		
Department of Corporate Services,	Listing Department		
The Deputy General Manager	The Asst. Vice President,		
REF:TEIL:SE:	Date: 5 <sup>th</sup> September, 2020		

Dear Sirs,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of the relevant newspapers advertisement regarding Notice of 84th Annual General Meeting of the Company, E-Voting and other related information published in Financial Express (English) and Jansatta & Viswa Manav (Hindi) on 5th September, 2020.

You are requested to please take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Triveni Engineering & Industries Ltd.,

GEETA BHALLA Group Vice President &

Company Secretary

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

STABLE TRADING COMPANY LTD. CIN- L27204WB1979PLC032215

Regd. Office: 2/5 Sarat Bose Road, Sukh Sagar, Flat No. 8A, Kolkata- 700020 Website: www.stabletrading.in Email: secretarial@stabletrading.in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 11th September, 2020, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the guarter ended 30th June, 2020.

The said notice is also available on the website of the Company i.e. www.stabletrading.in and the Calcutta Stock Exchange i.e www.cse-india.com.

For Stable Trading Company Ltd Place: Gurugram Khusboo Prasad Place: Gurugram

Date: 03.09.2020 Company Secretary

SUDHA APPARELS LIMITED CIN- L17299WB1981PLC033331

Regd. Office: 2/5 Sarat Bose Road, Sukh Sagar, Flat No. 8A, Kolkata- 700020 Website: www.sudhaapparels.com Email: secretarial@sudhaapparels.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 11th September, 2020, interalia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020.

The said notice is also available on the website of the Company i.e www.sudhaapparels.com and the Calcutta Stock Exchange i.e www.cse-india.com. For Sudha Apparels Limited

Raiesh Gupta Date: 03.09.2020 Company Secretary



## **ESSAR PORTS LIMITED**

Regd. Office: Salaya Administrative Building, ER-2 Building, Salaya. Taluka Khambhalia, District Devbhomi Dwarka, Jamnagar, Gujarat, 361305 India. Tel: 91 22 66601100

Email: epl.secretarial@essarport.co.in Web: www.essarports.com CIN.: U85110GJ1975PLC054824

#### NOTICE

Notice is hereby given that the Forty-Fourth Annual General Meeting (the Meeting) of Essar Ports Limited will be held on Friday, September 25, 2020 at 3.00 p.m. IST through video conferencing / other audio visual means ("OAVM") ("AGM" / "the meeting") organized by the Company. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Salaya Administrative Building, ER-2 Building, Salaya, Taluka Khambhalia, District Devbhomi Dwarka, Jamnagar Gujarat, 361305 India.

The Annual Report for the financial year 2019-20 including the Notice convening the meeting has been sent to the members to their registered address electronically by email to those members who have registered their email address with the Depositories / Company.

The Annual Report for the financial year 2019-20 including the notice convening the meeting is available on the Company's website www.essarports.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com. Physical copy of the notice of AGM and Annual Report will not be sent this year.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, the Company is providing electronic voting (evoting) facility to its members for voting on the business as specified in the Notice convening the 44" AGM of the Company.

Members are informed that the e-voting commences on Sunday, September 20, 2020 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 24, 2020 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on Thursday, September 24, 2020. Once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently. The Notice of the 44th AGM is available on the Company's website @ www.essarports.com.

Notice is also hereby given that the Company has fixed Friday, September 18, 2020 as the Record Date for the purpose of identifying the members for the purpose of AGM who are entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided on NSDL's website and in the Notice of the meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again. The facility for e-voting will be made available immediate after the Meeting and will last for 15 minutes after conclusion of the AGM and members attending the Meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote after Meeting through e-voting. In case of any queries, members may refer the Frequently Asked

Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at evoting@nsdl.co.in; or amitv@nsdl.co.in; or pallavid@nsdl.co.in or at telephone Nos. +91-22- 24994360 or + 91-9920264780 or +91-22-24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

By order of the Board of Directors

Place: Mumbai Date: September 5, 2020

Sd/-Neelam Thanvi Company Secretary M. No. F7045



26/27, Mumbai - Pune Road, Pimpri, Pune 411018 CIN: L31300MH1967PLC016531 | TEL: (020) 27475963 | FAX: (020) 2747 0344

Email: sales@finolex.com | Website: www.finolex.com

# NOTICE OF 52" ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Fifty-Second Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Company will be held on Tuesday, the 29th September, 2020 at 11.30 am through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the said

Notice of AGM and Annual Report: In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular No. 14/2020 dt. 08.04.2020, No. 17/2020 Dt. 13.04.2020 and No. 20/2020 Dt. 05.05.2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 Dt. 12.05.2020 issued by the Securities & Exchange Board of India ("SEBI Circular"), the Notice together with Annual Report for the financial year 2019-20 has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available on the Company's Website: www.finolex.com. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may refer to or download the same from the website or may request for a soft copy of the same by writing to the Secretarial Department (Email ID: investors@finolex.com) at the Registered Office of the Company

Book Closure Period: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 19th September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for payment of dividend for the financial year ended 31" March, 2020.

Dividend for FY 2019-20: The dividend recommended by the Board of Directors, @ 275 % (Rs. 5.50 per equity share of Rs. 2/- each fully paid up), if approved at the AGM will be paid on or before 28" October, 2020 in respect of shares held in physical form to those Members whose names appear in the Register of Members on 29th September, 2020 and in respect of shares held in electronic form to those Members whose names appear in the list of beneficial owners furnished by the Depositories as at the end of business hours on 18th September, 2020.

E-Voting: Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, read with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules, the Company has entered into an agreement with M/s National Securities Depository Limited ("NSDL") to facilitate the Members to exercise their right to vote by remote e-voting. The detailed process for participating in the remote e-voting is available in the Notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on 22" September, 2020 being the cut-off date may cast their vote electronically by remote e-voting.

The remote e-voting period commences on Saturday, the 26th September, 2020 (9.00 a.m.) and will end on Monday, the 28th September, 2020 (5.00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled thereafter by NSDL. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Website.

Contact Details: For any queries or issue regarding remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at download section of <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or call on Toll Free No.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Email ID: pallavid@nsdl.co.in, Tel: 022 - 24994545.

> By Order of the Board For FINOLEX CABLES LIMITED

Place: Pune Dated: 05° September, 2020

financialem epan.in

R. G. D'SILVA Company Secretary & President (Legal)

Place: Mumbai

Date: 04.09.2020



#### INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED CIN: L05190KA1921PLC036321

Read Office: First Floor, Subramanya Arcade, No.12/1, Bannerghatta Road, Bengaluru - 560 029. Telephone: +91 80 4685 5100 Fax: +91 80 4169 4399; Website: www.irco.com

## NOTICE

(For transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account)

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("The Rules"), Equity Shares of the Company in respect of which dividend amounts have remained unclaimed for seven consecutive years or more are required to be transferred to Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

The list of the concerned shareholders is available on the Company's website i.e. www.irco.com under "Investors Service" section.

In case you hold shares in physical form and such shares are liable to be transferred to IEPF, we are required to issue duplicate share certificate(s) for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account as per the Rules and, upon issue of such duplicate share certificate(s), the original share certificate(s), which stand registered in your names, will stand automatically cancelled. In case shares are in demat form and are liable to be transferred to IEPF, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer to the account of IEPF Authority.

In the event valid claim is not received by September 10, 2020 and December 9, 2020 for dividend payments dated July 24, 2013 and November 29, 2013 respectively, the Company will proceed to transfer the Equity Shares to IEPF without any further notice. Please note that the concerned shareholders can claim both, the unclaimed dividend amount and the shares from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same, duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company), along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5, to them. Please also note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

In case of any queries, the concerned shareholders may contact our Share Transfer Agents viz. TSR Darashaw Consultants Private Limited, Unit: Ingersoll-Rand (India) Limited, 6-10, Haji Moosa Patrawala Industrial Estate, 20, Dr. E. Moses Road (Near Famous Studio), Mahalaxmi, Mumbai - 400 011, Email: csgunit@tsrdarashaw.com Phone: 022 6656 8484 Fax: 022 6656 8494.

> For INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED P. R. SHUBHAKAR

Place: Bengaluru Date: September 4, 2020 General Manager- Corp. Finance and Company Secretary

# 7IndiGrid INDIA GRID TRUST ("IndiGrid")

(An Infrastructure Investment Trust registered with Securities & Exchange Board of India vide Registration No. IN/InvlT/16-17/0005)

Principal Place of Business: F-1, The Mira Corporate Suites, 1&2, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi 110065 Tel: +91 84509 96408; Compliance Officer: Swapnil Patil;

E-mail: complianceofficer@indigrid.co.in; Website: www.indigrid.co.in

# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING TO UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given that the Third Annual General Meeting (AGM) of India Grid Trust (IndiGrid) will be held on Monday, September 28, 2020 at 4.00 p.m. IST through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is circulated for convening the AGM.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has vide its circular dated June 22, 2020 (the Circular) permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Unitholders at a common venue. In compliance with this Circular and the Regulation 22 of the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, as amended (the "InvIT Regulations") and all other applicable Regulations of the InvIT Regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and subject to other applicable laws and regulations, the AGM of Unitholders of IndiGrid will be held through VC / OAVM. The Notice of AGM along with Annual Report 2019-20 is sent only by electronic mode to those Unitholders

Unitholders may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the IndiGrid's website www.indigrid.co.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Unitholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Unitholders attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum. IndiGrid is providing remote e-voting facility (remote e-voting) to all its Unitholder to cast their votes on all

whose email addresses are registered with the IndiGrid / Depositories in accordance with the aforesaid Circular.

resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, IndiGrid is providing the facility of voting through evoting system during the AGM (e-voting). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM.

The Unitholders are requested to update their e-mail addresses with the Depository Participant. Alternatively, Unitholders can update their contact details such as Address, E-mail ID & mobile No. by sending e-mail to KFIN Technologies Pvt. Ltd. at support.indiagrid@kfintech.com. This will help the IndiGrid to share communications with Unitholders during Covid-19 appropriately.

For India Grid Trust By Order of the Board

Sterlite Investment Managers Limited

(as the Investment Manager to India Grid Trust)

Swapnil Patil

Company Secretary & Compliance Officer

Mumbai, September 04, 2020

#### COLAMA COMMERCIAL COMPANY LIMITED

CIN: L51109WB1983PLC035719 Bikaner Building, Mezzanine Floor, Room No. - 4, 8/1, Lal Bazar Street,

Kolkata - 700001 Ph No. - (033) 22900580/ 22837828/29 Mob No. - 9331032756

Fax No. - (033) 22900582, E-mail - colamacommercial@gmail.com NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Colama Commercial Company Limited is scheduled to be held on Tuesday, September 15, 2020 at 12.30 p.m, at the Registered Office of the Company at Bikaner Building, Mezzanine Floor, Room No. - 4, 8/1, Lal Bazar Street, Kolkata 700001, to consider and approve, inter-alia, the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30,

on the Company's website viz. www.colamacommercial.in By Order of the Board

Information in this regard is also available

For Colama Commercial Company Limited

RAJESH PRAJAPATI Place: Kolkata

Wholetime Directo Date: September 4, 2020 DIN: 08251452

#### RUDKABHISHEK ENTERPRISES LINITED CIN: L74899DL1992PLC050142

Registered office: 820, Antriksh Bhawan, K.G Marg, New Delhi-110001

E-mail: secretarial@replurbanplanners.com Website: www.repl.global Notice is hereby given that 28th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Monday, September 28, 2020 at 3:00 PM (IST) through video conferencing (VC) or other audio visual means: (OAVM) in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in compliance with the procedure prescribed in General Circ ular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the MCA and Circular No. SEBVHO/CFO/CMD1, CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the SEBI, without physical presence of

In terms of provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22<sup>rd</sup> September 2020 to 28th September 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM & declaration of dividend. The 28th AGM Notice along with the statement annexed to the Notice pursuant to

Section 102 of the Companies Act, 2013 & Annual Report for the year ended 31\*

March 2020, has been sent to all the members through electronic mode (E-mail)

registered with the Company, the Depositary Participants (DPs)/ the Registrar and Share transfer Agent (R & T Agent). The Notice and Annual Report of the Company can also be downloaded from the Company's website at www.repl.global. A person whose name appears in the register of members/ beneficial owners as on outoff date i.e. 21st September, 2020 only shall be entitled to dividend & voting at the meeting. The Company has appointed Mr. Pradeep Debnath, Company Secretary of M/s Pradeep

Debnath & Co., Company Secretaries, as Scrutinizer to scrutinize the voting process at the AGM in a fair and transparent manner. Further as per Notification issued by Ministry of Corporate Affairs dated 19th of March, 2015 with reference to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Companies covered under Chapter XB and Chapter XC as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009 will be exempted from e-voting provisions. Our Company is covered under Chapter

Company is not providing a voting facility to its shareholders. In case of any query, you may contact Mr. Vikas Gupta, Company Secretary at sec retarial@replurbanplanners.com.

XB as it is a SME Company and listed on SME platform of NSE Limited. Therefore,

By the order of the Board of Directors

Vikas Gupta

Company Secretary

For Rudrabhishek Enterprises Limited

Date: 04/09/2020 Place: New Delhi

RattanIndia Power Limited

# Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30 June 2020

the members at a common venue.

		Quarter Ended			Year Ended
Sr. No	Particulars	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Unaudited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total income from operations	195.74	294.33	560.85	1,773.88
2	Net Loss for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	(450.78)	(511.77)	(488.06)	(2,502.26)
3	Net (Loss)/ profit for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	(450.78)	(511.77)	(488.06)	165.15
4	Net (Loss)/ profit for the period after tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	(450.78)	(511.77)	(488.06)	165.15
5	Total comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising profit/ (loss) for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(450.74)	(516.10)	(485.80)	154.64
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10 per Equity Share)	4,939.78	4,939.78	2,952.93	4,939.78
7	Other equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year				(4,510.23)
8	Earnings Per Share before extraordinary items (Face Value of Rs. 10 per Equity Share) -Basic (Rs.) -Diluted (Rs.)	(0.91)* (0.91)*	(1.11)* (1.11)*	(1.65)* (1.65)*	0.49 0.46
	*(EPS for the quarter are not annualised)				

### (a) Additional information on standalone financial results is as follows:

Sr. No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Unaudited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total income from operations	195.74	294.33	560.85	1,773.88
2	Net Loss for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	(0.03)	(51.92)	(82.88)	(768.70)
3	Net (Loss)/ profit for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	(0.03)	(51.92)	(82.88)	1,898.71
4	Total comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising profit/ (loss) for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	0.01	(51.81)	(82.88)	1,899.12

Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the company's website www.rattanindia.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com (c) The Auditors in their Audit Review Report on the standalone unaudited financial results for the year ended 30 June, 2020 have

brought out that: the Company has a non-current investment of Rs. 1,513.13 crores (net of impairment provision) and inter corporate deposits (classified under current assets) of Rs. 25 crores recoverable from Sinnar Thermal Power Limited (formerly RattanIndia Nasik Power Limited) (STPL), a wholly owned subsidiary of the Company, as at 30 June 2020. The subsidiary company has incurred losses since its inception and is yet to commence operations. The accumulated losses in the subsidiary company amount to Rs. 5,842.21 crores as at 30 June 2020, and the management of the subsidiary company had determined that a material uncertainty exists as at 30 June 2020, that may cast significant doubt about the subsidiary company's ability to continue as a going concern. The management of the Company, based on an internal estimate, has recorded an impairment of Rs. 1,513.13 crores against carrying value of investment in STPL in previous year. In the absence of evidence for such impairment assessment performed by the management, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on any adjustment that may further be required to be made to the balance carrying value of the above mentioned non-current investment of Rs. 1,513.13 crores and inter corporate deposits of Rs. 25 crores as at 30 June 2020 and the consequential impact thereof on the accompanying

Registered Office: A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi-110037 On behalf of the Board of Directors

CIN: L40102DL2007PLC169082

Place: New Delhi Date: 04 September 2020

ESSAR<sup>†</sup>

For RattanIndia Power Limited

Rajiv Rattan

### TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED Corporate Indentity Number: L15421UP1932PLC022174

Regd. office: Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh - 247554 Corp. office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, U.P. - 201301 E-mail: shares@trivenigroup.com, Website: www.trivenigroup.com, Phone: 91 120 4308000 / Fax: 91 120 4311010-11

#### NOTICE OF 84" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING Annual General Meeting Notice is hereby given that the 84th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Triveni

Engineering & Industries Limited is scheduled to be held on Monday, 28th September, 2020 at 11.00a.m.(IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OVAM) in accordance with the General Circular Nos 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and other applicable circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") collectively referred to as ("relevant circulars") to transact the business as set out in the notice convening the said AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OVAM or view the live web cast at https://emeetings.kfintech.com.

The company has completed mailing of AGM notice and Annual Report 2019-20 on 3rd September, 2020 electronically to those members who have registered their e-mail address with the Company/Depository Participant(s) / Company's Registrar and share Transfer Agent, KFIN Technologies Private Ltd ("KFintech"). These documents are also available and can be downloaded from the Company's website at www.trivenigroup.com and on the web site of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFintech at https://evoting.kfintech.com.

Voting through Electronic Mode

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing all its members the facility to exercise their votes electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) and e-voting at the AGM through the e-voting services provided by KFintech on all the resolutions as set out in the Notice of AGM. The detail procedure / instructions for this purpose are provided in the notice of the AGM and also on the website of KFintech i.e https://evoting.kfintech.com. All the members are informed that :

a) The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;

 The remote e-voting period commences on Friday, 25th September, 2020 (10.00 a.m. IST) c) The remote e-voting period ends on Sunday, 27th September, 2020 (5.00 p.m.IST)

d) The cut off date for determining the eligibility to vote by electronics mode (remote evoting and voting at the AGM) is Monday, 21st September, 2020.

e) Any person who becomes member of the Company after 28th August, 2020 and holding shares as on the cut off date i.e 21st September, 2020 may follow the procedure for obtaining the user ID and password for casting vote through e-voting as given in the instructions of notice of the AGM.

f) Members may note that (i) the remote e-voting module shall be disabled by the KFintech for voting after Sunday, 27th September, 2020 (5.00 p.m. IST) and once the vote on a resolution is cast by the members, he shall not be allowed to change it subsequently; (ii) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again. (iii) A person, whose name is recorded in the Register of Members / Lists of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.

g) The Notice of AGM is available on the Company's website www.trivenigroup.com and also on the Kfintech's website https://evoting.kfintech.com.

h) In case you have any queries or issues regarding e-voting, members may contact KFintech on evoting@kfintech.com or on toll free number 1800-345-4001 or contact Ms. Shobha Anand, Deputy General Manager, E-mail- einward.ris@kfintech.com, Phone - 040-67162222 for any grievances connected with the facility for e-voting on

Login credential used for e-voting may also be used for attending the AGM through VC/OAVM. The procedure for attending the AGM is explained in the Notice of the AGM. Members may access the same at https://emeetings.kfintech.com.by.clicking."AGM" video.conference. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through Insta Poll at the AGM.

For Triveni Engineering & Industries Ltd.

Geeta Bhalla Group Vice President & Company Secretary

# **GROUP PHARMACEUTICALS LIMITED**

CIN: U24239MH1980PLC022889 Regd.off: W-46 (B) M I D C, Tarapur Industrial Area Thane,

Maharashtra, 401506, Tel: + 91 8087655188 Website: www.grouppharma.in Email: rpanchal@grouppharma.in

# NOTICE

Notice is hereby given that 40° Annual General Meeting ('AGM") of Group Pharmaceuticals Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 29" September, 2020 at 12:00 noon. Pursuant to Circular No. 20/2020 dated 5"May 2020 read with Circulars dated 8th April 2020 and 13" April 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), the AGM is being held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility being provided by Central Depository Services Limited (CDSL), to transact the business as set out in the Notice dated 31" August, 2020 convening the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and the MCA Circulars mentioned above, electronic copies of the Notice convening the AGM and the Annual Report for the year ended 31"March 2020 is being sent by email to all such Members of the Company whose Email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent viz. Bigshare Services Private Limited ("Bigshare")/their respective Depository Participant(DP). The Notice of the AGM will also be available on the Company's website www.grouppharma.in. Members holding shares in physical form may get their Email ID by providing their Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by Email to Bigshare at vinayak@bigshareonline.com In case shares are held in dematerialized form,

the Members may kindly register their Email ID with their DP. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is pleased to provide to its Shareholders, the facility of "Remote E-voting" i.e. facility to cast votes from a place other than the venue of the AGM, by using an electronic voting system, on all the resolutions proposed to be considered at the AGM. The Remote E-voting and E-voting at the AGM is being provided through CDSL

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has fixed 22" September, 2020 as the "cut-off date" to determine the eligibility of Members to vote by electronic means or at the AGM. A person whose name appears in the Register of Members of the Company or in the Statement of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 22<sup>rd</sup> September, 2020, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote at the AGM.

The E-voting details are as follows:\ (I) Date & time of commencement of remote E-voting through electronic

means: Saturday, 26"September, 2020 at 9.00 A.M.

(ii) Date & time of end of remote E-voting through electronic means: Monday, 28" September, 2020 at 5:00 P.M. (iii) A member may participate in the meeting even after exercising his right to

vote through remote-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. (iv) The Members may go through the E-voting instructions contained in the Notice and in case of any queries/grievances, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting User Manual available at the download section of www.evotingindia.com or call on toll free no.: 1800-22-5533 or send an email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL official Mr. Rakesh Dalvi at designated email ID:

rakeshD@cdslindia.com or at telephone nos.: +022 23058542/43, The facility for E-voting shall also be made available during the AGM. In case a person has become Member of the Company after the dispatch of

AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. 22" September 2020, he/she may write to CDSL on the email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com requesting for the User ID and Password. If he/she is already registered with CDSL for Remote E-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. After receipt of the User ID and Password, such Members can exercise their voting rights through remote E-voting by following the instructions or by voting at the AGM. The details of the meeting are also available on the Company website www.grouppharma.in

> By Order of the Board sd/-Sunil Attavar **Managing Director** DIN: 00091347

HAZIRA CARGO TERMINALS LIMITED Regd. Office: Salaya Administrative Building, 44 KM, P. O. box 7, Taluka Khambaliya, District Dev Bhoomi Dwarka, Jamnagar, Gujarat 361305 India. Tel: +91 22 66601100

Notes:

Email: epl.secretarial@essarport.co.in Web: www.essarports.com CIN: U61100GJ1993PLC019238 NOTICE Notice is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting

(the Meeting) of Hazira Cargo Terminals Limited will be held on Friday.

September 25, 2020 at 3.30 p.m. IST through video conferencing/other

audio visual means ("OAVM") ("AGM" / "the meeting") organized by the

Company. The venue of the meeting shall be deemed to be the

Registered Office of the Company at Salaya Administrative Building, 44 KM, P.O. Box 7, Salaya, Taluka Khambhalia, District Devbhomi Dwarka. Jamnagar Gujarat, 361305 India. The Annual Report for the financial year 2019-20 including the Notice convening the meeting has been sent to the members to their registered address electronically by email to those members who have registered their email address with the Depositories / Company.

convening the meeting is available on the Company's website www.essarports.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com. Physical copy of the notice of AGM and Annual Report will not be sent this year. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the

rules made thereunder, the Company is providing electronic voting

(e-voting) facility to its members for voting on the business as specified in

The Annual Report for the financial year 2019-20 including the notice

the Notice convening the 27" AGM of the Company. Members are informed that the e-voting commences on Sunday, September 20, 2020 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 24, 2020 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on Thursday, September 24, 2020. Once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently. The Notice of the 27" AGM is available on the

Notice is also hereby given that the Company has fixed Friday, September 18, 2020 as the Record Date for the purpose of identifying the members for the purpose of AGM who are entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice.

Company's website @ www.essarports.com.

evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided on NSDL's website and in the Notice of the meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s)

Meeting and will last for 15 minutes after conclusion of the AGM and members attending the Meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote after Meeting through e-voting. In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit Vishal

Date: September 5, 2020

Place: Mumbai

address the grievances connected with the voting by electronic means. M. NO.: A21418

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at

again. The facility for e-voting will be made available immediate after the

Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at evoting@nsdl.co.in

or amitv@nsdl.co.in; or pallavid@nsdl.co.in or at telephone Nos. +91-

22- 24994360 or + 91-9920264780 or +91-22-24994545 who will also

By order of the Board of Directors Sd/ Ketki Belhe Company Secretary

New Delhi

Procedure for Joining the AGM through VC/OAVM The company shall provide VC/OAVM facility to its Members for participating at the AGM. The

Date: 4 Sept., 2020

Place: Noida (U.P.)

# हेलिकॉप्टर घोटाला : हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा ईडी

नई दिल्ली, 4 सितंबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में राजीव सक्सेना के सरकारी गवाह के दर्ज को वापस लेने के अनुरोध वाली उसकी याचिका खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न्यायमुर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष कहा कि वह हाई कोर्ट के आठ जुन के आदेश के खिलाफ शनिवार को सप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। हाई कोर्ट ने सक्सेना की जमानत रद्द करने की अपील से संबंधित मामले पर सुनवाई स्थगित करने की ईडी की याचिका

स्वीकार कर ली और इस मामले को 15 अक्तबर को सनवाई के लिए सचीबद्ध कर दिया।

ईडी की ओर से पेश

अधिवक्ता जोहेब हसैन ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर करने जा रहे है। जैसा कि हमने यहां कहा, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी। इस मामले को अगले कुछ दिन में सुचीबद्ध किया जा सकता है। हमने न्यायालय से मामले की सुनवाई दो सप्ताह टालने का अनुरोध किया था।' ईडी हाई कोर्ट के आठ जून के आदेश को चनौती दे रहा है, जिसमें सक्सेना का सरकारी गवाह का दर्जा वापस लेने के अनुरोध वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।



प्रवेश

पूर्व-स्कूली शिक्षा में डिप्लोमा के लिए सत्र 2020–21 हेत् प्रबंधन कोटे की सीटों को भरने के लिए आवदेन पत्र उपलब्ध हैं। इच्छक उम्मीदार कॉलेज कार्यालय में 5 सितम्बर 2020 से 19 सितम्बर 2020 तक 0830 से 1500 बजे के बीच सम्पर्क कर सकते हैं।

# वेबसाइट : www.afvc.org.in ई मेल : afvc\_newdelhi@yahoo.com

# जेडीएस फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 307, लुसा टॉवर, आखादपुर, दिल्ली-110033 सीआहंएन : L65999DL1984PLC018035, हं-मेल आहंडी : info@jdsfinance.in

चेबसाहर : www.jdsfinance.in दूरभाष नं. : 011-40424242 36वीं एजीएम, ई-वीटिंग तथा बुक क्लोजर की सुबना

एउद्धार। सुबित किया जाता है कि एजीएम की सुबता में निधारित प्रकारों के लेन-देन के लिए जेडीएस फाइनेंस कंपनी लिपिटेड के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आप बैठक (एजीएप) गुधवार, 30 सिराप्तर, 2020 को 10.00 बजे प्रातः ( पा.पा.स.) होटल पाप ग्रीप. पेन जो.टी. करनाल रोड. बकोली. दिल्ली-110036 पर आयोजित की जायेगो। कप्पनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ 36वों एजीएप की सुचना केवल उन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक पाध्यप से पेज दो है जिनके हैं-पेल पते कप्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट तथा डिपॉजिटरी के साथ मंजीकत हैं। एमसीए परिपत्रों तथा सेजी मरिपत्र के माध्यम से एजीएम की सुचना की पीतिक प्रतियाँ पेजने को आवश्यकता समाप्त कर दो गयो है। अन्य बातों के साभ-साथ कप्पनी को बार्मिक रिपोर्ट 2019-20 तथा अवीं एजीएम की सुचना और व्याख्यात्मक विवरण कम्मनी की वेबसाइट तथा स्टॉक एक्सचेंगों की वेबसाइट www.msei.in पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिपिटेड ("एनएसडीएल") को केनसह्य www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगी।

कप्पनी अधिनियप, 2013 तथा प्रासंगिक नियमों एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के साथ पठिल धारा 108 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में कप्पनी एनएसडीएल के पाध्यप से एजीएप में लेन देन किये जाने वाले प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में रिमोट ई-जोटिंग तथा एजीएम के दौरान मनदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है. विस्तृत निर्देश एजीएम की सुचना में दिये गये हैं। रिमोट ई-जोटिंग 27 सिलम्बर, 2020 को 9 बजे प्रात: प्रारम्भ होगी और 29 सितप्बर, 2020 को 5 बजे अप, समाप्त होगी। इसके पश्चात फादान हेतु रिमोट ई- बोटिंग मॉड्युल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा तथा कथित तिथि एवं सपय के उपराना सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फादान करने की अनुपति नहीं होगो। सदस्यों के पताधिकार 23 सितप्जार, 2020 ('कट-ऑफ तिथि') तक कप्पनी की प्रदात इम्बिटी होयर पुँजों के उनके होयारों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो होयर अजिंत करता है और सूचना पेजे जाने के उपरान्त सदस्य जन जाता है तथा कट ऑफ विभि तक शेयर घारण करता है. वह evoting@nsdl.com पर निवेदन भेजकर अभवा एनएलडीएल द्वारा प्रावधानिक येल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर सप्पकं करके रिपोट हैं-बोर्टिंग हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवाडें प्राप्त कर सकता है।

एक्द्रारा पुनः सूचना दो जातो है कि अधिनियम को घारा ११ तथा उसके तहरा निर्मित नियमों के अनुसार ३६वों एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रिजस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरम पुरितकाएँ 24 सितम्बर, 2020 से 30 रिफाप्तर, 2020 (दोनों शिधियाँ शाधिल) तक बद् रहेंगी।

सदस्य ( पीतिक तथा डीपैट घारक) जिन्होंने अपने अपने हैं पेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया एजीएप की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने तथा रिपोर्ट ई-बोटिंग के लिए लॉगिन आईडों एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ई-पेल पतों तथा पैन की स्कैन्ड प्रति सहित कप्पनी के पास info@jdsfinance.in पर निवेदन पेजें।

सुचना की

की गंशि

तीस पात्र}

बारह पात्र}

तक

अगस्त,

बोर्ड के आदेशानुसार कृते जेडीएस फाइनेंस कम्पनी लिपिटेड

पुलधन तथा ब्याज की अदायगी ने चुक की है तथा उनकी ऋण खाताओं को गैर प्रचालन परिराप्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्पाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अभिनियम, 2002 (सरफैसी अभिनियम) की भारा 13 (2) के अंतर्गत उनके अंतिप ज्ञात पते पर सुचनाएं भेजी गई लेकिन वह अन-सर्व्ह वापस लौट आई और इसीलिए सार्वजनिक सुचना के पाप्यप से उन्हें सुचित किया

प्रतिभत आरितः यो ) का विवरण (अचल सम्पत्ति/याँ)

रु. क्षेत्रफल २५.९० वर्ग मीटर, ब्लॉक-जी, पॅकिट-१, सेक्टर-१६, में,

पॅकेट-१, सेक्टर-१६ में, रेहिणी आवासीय योजना, दिल्ली-११००९५

के लेआउट प्लान में स्थित, सीमाएँ अग्रलिखित हैं: उत्तर: प्लॉट सं.

230, दक्षिणः प्लॉट सं. 232, पूर्वः सर्विस लेन, पश्चिपः प्रवेश।

रु. राप्पत्ति सं. बी-67, साइट के अनुसार अन्तिप पंजिल तक निर्पिति के

रु. पीटर, लगभग, भूतल एवं प्रथम तल से निर्मित, प्लिंथ एरिया 100 2016

35,43,7047- रोहिणी आवासीय योजना, दिल्ली-110089 के लेआउट प्लान में

(रुपये) पिचासी रिथत तथा जिसकी सीमाएँ अग्रलिखित हैं: उत्तर: प्लॉट सं. 229,

हजार सात सौ 2) सम्पत्ति सं. 231, भूमि क्षेत्रफल 25,90 वर्ग मीटर, ब्लॉक-जी,

18 अगस्त, 27.07.2020 बिल्ट-अप सप्पत्ति क्षेत्रफल पाप 50 वर्ग गन का सप्पूर्ण पाग, ा पई,

60,89,8307- अधिकार सिरत, आबादी गली ने. 5, पूर्वी नाथू कॉलोनी में स्थित,

(रुपये - साट|ग्राप सबोली, ग्राप शारुदरा, दिल्ली-110093 के क्षेत्र में तथा निसकी|

लाख नवासी|सीपाएँ निप्नलिखित हैं: उत्तर: अन्य की सप्पत्ति, दक्षिण: अन्य की|

18 अगस्त, 27.07.2020 राप्पत्ति सं. 3 का सप्पूर्ण भाग, भूपि क्षेत्रफल ७० वर्ग गज 🗻 67 वर्ग 🗅 जुलाई,

60,14,7127- वर्ग पीटर लगभग, ग्राप कड़कड़डूपा के क्षेत्र में स्थित, खसरा नं.

(रुपये साट 1396-97 में से, आबादी गली नं. 1, आर्य नगर, दिल्ली तथा इसकी

| 92,85,6317 - | आर्च्ड कॉप्पलेक्स, खसरा नं. 376, अयोध्या कुंज, बी.आई.पी. रोड, |

(रुपये) बानबे अर्जुन नगर, लोहा पण्डी, आगरा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-282001

लाख पिचासी पर निर्मित और जिसकी सीपाएँ निप्नलिखित हैं: उत्तर: पहाजन की हजार छः सौ राप्पत्ति, दक्षिणः रापजी लाल शर्पा की सप्पत्ति, पूर्वः अपरनाथ की

इकतीरा मात्र } | राप्पत्ति, पश्चिमः रुटेयरकेरा उराके पश्चात ७० फीट चौदी राइक।

चौदर सीपाएँ निप्नतिखित हैं: उत्तर: गली, दक्षिण: अन्य की सप्पत्ति, पर्वः।

रु. 1} दुकान नं. 1, लोअर ग्राडण्ड, पाप लगभग 256 वर्ग फीट, सुरेन्द्र

(2) गोदाप (हॉल) नं. ३, दूसरी पंजिल, पाप लगभग ४१५:४७ वर्गी

फीट, सुरेन्द्र आर्च्ड कॉप्पलेक्स, खरारा नं. ३७६, अयोध्या कुंज, बी.आई.पी. रोड, अर्जुन नगर, लोहा पण्डी, आगरा, उत्तर प्रदेश, पिन

कोड-282001 पर निर्मित और जिसकी सीपाएँ निप्नलिखित हैं: उत्तर:

पहाजन की सम्पत्ति, दक्षिण : गोदाप, पूर्व: अपरनाथ की सम्पत्ति,

पश्चिपः स्टेयरकेस उसके पश्चात ७० फीट चौड़ी सड़क।

हजार आठ सौ राप्पत्ति, पूर्वः अन्य की सप्पत्ति, पश्चिपः गली।

हजार स्रात सौ अन्य की सप्पत्ति, पश्चिमः अन्य की राप्पत्ति।

27.07.2020 निप्नतिखित सप्पत्ति का सप्पूर्ण भागः

१७ अगस्त, २७.०७.२०२० अग्रलिखित सप्पत्ति का सप्पूर्ण भाग : 1) राप्पत्ति सं. २३०, भूपि

लाख तैतालीरा दक्षिणः प्लॉट सं. २३१, पुर्वः सर्विस लेन, पश्चिपः प्रवेश

तिथि : 05.09.2020 स्थान : दिल्ली

ऋण अन्बन्ध

सं./कर्जदार(रों}/जपानती(यों} के

ऋण अनुबन्ध सं.

(कर्नदार)

कर्जदार}

420370

कर्नदार}

503633

ऋण अनुबन्ध सं.

ऋण अनुबन्ध सं.

ऋण अनुबन्ध सं.

533271 तथा 541299

413886 तथा 534423

1. पनीध गोपी चन्द कुकरेजा

3. गोपी चन्द कुकरेजा (सह-

(1) पंकन वर्षा (कर्नदार) (2) कंचन वर्षा (सह-कर्जदार)

(३) अरुण कुपार वर्षा (सह-

(1) सुनील कुपार (कर्नदार) (2) कुन्दन सिंह (सह-कर्नदार)

(३) काली चरन (सह-कर्जदार)

(४) नीरज कुपार (सह-कर्जदार)

(५) सुपारती सिंह (सह-कर्जदार)

(1) सुशील परेन्द्र रावत (कर्नदार) (2) रिश्प रावत (सह-कर्जदार)

2. हीना गोपी चन्द कुकरेजा (सह-

अजय जैन प्रबन्धा निदेशका

## THE SONIPAT CO-OP. SUGAR MILLS LTD., SONIPAT REQUIRES

r. o.	Name of Post	Qualification	Pay-Scale	Category & Age Limit
	Dy. Chief Accounts Officer (on regular basis)	ACADEMIC: Charted Accountant or ICWA EXPERIENCE: 1 year of handling the accounts & finance of a reputed commercial Organization having turn over of minimum Hs. 10 crores per annum.	Hs. 9300- 34800+4200 Function Pay Level-7 (initial pay 44900)	Unreserved & 45 years

Application with complete particulars along with Contact/Mobile No./ E-mail and Attested Copies of Qualification, Experience must reach in Mill Office by Post/ E-Mail: sonipatsugar@gmail.com upto 15.09.2020, 5.00 P.M. Persons already working and those from in Coop. Sugar Mills of Haryana should submit their application through proper channel with No Objection Certificate.

Managing Director, 2684/SSML The Sonipat Coop. Sugar Mills Ltd; Sonipat.

# जिन्दल फोटो लिमिटेड

[CIN No: L33209UP2004PLC095076] फंजी. कार्यालयः १९वाँ कि.मी., हापूड्-बूलन्दश्रहर रौड, पी.ओ. गुलावाथी,

जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203408 प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. 12, रोक्टर बी-1, लौकल शापिंग कॉम्प्लैक्स,

बसन्त कुंज, नहें दिल्ली-110070

रेली:: 011-40322100, ई-मेल: cs-jphoto@jindalgroup.com, वेबसाइंट: www.jindalphoto.com

सुचित किया जाता है कि कोशिड-19 महामारी के प्रसार की देखते हुए जिन्दल फोटो लिमिटेड ("कम्पनी") की 17वीं वर्षिक साधारण सभा ("एजीएम") कप्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानी वर्षा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कॉर्पीरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) सर्क्युंलर सिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित सर्व्युक्तर तिथि इ अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 तथा उसके सर्व्युक्तर तिथि 12 पई, 2020 के पाष्ट्रप से भारतीय प्रतिभूति तथा भिनिषय बोर्ड (सेबी) के सर्व्युक्तर (सापृहिक रूप से सर्व्युक्तरी धर्णित) के अनुपालन में एजीएम की सुचना जो उपयुक्त समय पर धेजी जायेगी, में निर्दिष्ट ध्यधसायों को| निष्पादित करने के लिये पंगलवार, 29 सिवप्पर, 2020 को 12.30 पूर्वा. में विडियो कार्यनेसिंग (धीसी)/अन्य ऑडियो चिजुअल माध्यमी (ओएबीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी।

सदस्याण पुनः ब्यान रखें कि उपरोक्त सर्क्युंलर्स के अनुपालन में तथा सरकार की गो-प्रीन पहला को आगे अदाने के लिये एनीएम की सुचना तथा शिव शर्ष 2019-20 के शार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पद्धवि से केयल ऐसे सदस्यों को हो धेने जाएंगी जिनके हंमेल परे कम्पनी/डिपॉजिटरी पर्टिसिपैन्ट के पास पंजीकत हैं। बीसी या ओएबीएम के माध्यम हो हाथा में उपहिध्यत होने वाले हादहवों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंवर्गत कोरम सुनिशिचत करने के लिये की जायेगी। पूर्व के ध्ययहारों की वरह कम्पनी अपने सदस्यों की ई-योटिंग तथा रिपोट ई-बोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है।

कप्पनी के एफराई 2019 - 20 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएप सुनना की ई-कॉपी कप्पनी की रोधसाईट www.jindalphoto.com বামা মাম হী মাঁদ্মেই (মাঁদ্মেই) www.bseindia.com বামা नेशनल स्टॉक एक्सचैंग ऑफ इंडिया लिपिटेड की वैक्साईट www.nseindia.com पर उपयुक्त समय

सदस्य केवाल बीसी/ओएबीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने का विस्तृत निर्देश एजीएम की सुचना में दी जायेगी। तदनुसार, कृषया ध्यान रहे कि कोशिड-19 महामारी से संबोधित सरकारी प्राधिक रणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सुनिशिन्स करने के लिये व्यक्तिगत रूप से कप्पनी के एजीएप में उपरिधत तथा शामिल होने का कोई प्रायधान नहीं किया गया है।

यदि आपका ईमेल पता काप्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत नहीं है तो कुपया नीचे धर्णित रूप में उसके पंजीकरण की प्रक्रिया का अनसरण करें:

भौतिक। फोलियो सख्या, शेयरधारक का नाप, शेयर प्रपाग पत्र (फान्ट एवं बैक) को स्कैन को गई प्रति, पैन (पैन धारिता कार्ड को रक्तः सत्यापित स्कैन को गई प्रति), अधार (आधार कार्ड को स्वतः सत्यापित स्कैन को गई प्रति उपलब्ध कराते हुए हंपेल पते के पर्नीकरण के लिये delhi@linkintime.co.in पर कप्पनी के रिवरट्रार तमा अतरण एंगेन्ट्स, तिक इन्हरूप इडिया प्रहृंबेट तिपिटेड के पास अनुरोध भेगें ()

कपया. यदि पहले से वह पंजीकृत नहीं है. तो फोलियों न. का उत्लेख करते हुए हमारे आरटीए (अमात् तिक इन्टाइम इंडिया प्रा.ति. नोबल हाइट्स. १ता वत. प्तॉट न. एनएव २. एतएससौ सौ १ व्यक्ति, साधिजी पार्केट के निकट, जनकपरी, नई दिल्ली 110058 के मास पत निरस्न वालान के साथ अपने बैंक का क्पया 21.9.2020 को या पूर्व में उसे अपडेट कराएँ।

ंडीपैट किपया अपने डिपाणिटरी पार्टिसपैन्ट ( डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सताह से प्रक्रिया का अनसरण धारिता कर अपना इंपेल पता पर्नोकत कराएँ।

कपया कप्पनी द्वारा यदि, घोषित होता है, अपनी खाता में लाभाश भुगतान के लिये अपने होंपी के पास अपने बैंक के विवरणों को भी अद्यतन कराएँ। कपया 21.9.2020 की या उससे पूर्व उसे अद्युतन कराएँ।

रादरम यह भी ध्यान रही कि यदि आफक। ईमेल आईडी कप्पनी√डिपॉजिटरी पॉर्टिसपैन्ट के पास दर्ज है तो एजीएम की सुचना के साथ पंजीकृत ई-मेल परो पर रिमोट ई-बोटिग/एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिये लॉगिन विधारण भैजा जायेगा। लेकिन, जिन सदस्यों ने अपने ई - मेल आईडी पंजीक्त नहीं कराये हैं, ये उपरोक्त रूप में हंपेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें।

सदरमान ध्यान रही कि रिपोट ई-बोलिंगएजीएम के दौरान ई-बोलिंग की बिरहा प्रक्रिया एजीएम की सुनना में बर्गित है। ठव्च जानकारी राभी रादरमों के सुचनार्थ तथा लाभार्थ तथा एमसीए सर्व्युलर्स तथा रोबी सर्व्युलर के अनुपालन में जारी की जा रही है।

> जिन्दल फोटो लिपिटेड के लिये अशोक बाउव

स्थानः दिल्ली तिथिः ४ सितम्बर, २०२० (कपानी सविष

# आनंद प्राजिक्ट्स लिमिटेड (CIN: L40109UP1936PLC048200)

पंजी. कार्यालयः हाउस नं. ३०४, आजादपुरा, ललितपुर-284403 (उ.प्र.) वेबसाइट: www.anandprojects.com, टेली. नं. +919891067472

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को एफएफ 001 एवं 035, 2श तल, अंसल फॉर्च्यून आर्केंड, सेक्टर-18, नोएडा- 201301 (उ.प्र.) में आयोजित की जाएगी जिसमें उसमें बोर्ड बैटक के अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसायों के साथ विच वर्ष 2020-21 के 30 जुन, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिये कम्पर्न के अनंकेक्षित विचीय परिणामों (स्टैंडएलॉन) पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएँगे।

ठक्त जानकारी कंपनी की दोबसाईट www.anandprojects.com पर भी उपलब्ध तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी देखी ज सकती है।

पुनः सेबी (इन्साइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा समय-समय पर संशोधित के अनुपालन में निर्मित इन्सायहर ट्रेडिंग के लिये कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभतियों में कारोबार के लिये टेडिंग विण्डो संहिता के अंतर्गत शामिल सभी निदेशकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये 01 जुलाई, 2020 से स्टॉक एक्सचैंजों को उपरोक्त अनंकेक्षित विचीय परिणामों की सूचना देने बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेंगे। बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से

तिथि: 4.9.2020 सुरेन्द्र कुमार शर्मा स्थानः ललितपुर

इन्टाग्रेटंड टेक्नालाजीज लिमटंड पंजी. कार्याः सी-24, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, भारत 🗍 ई-मेलः info@integratedtech.in, वेबसाईटः www.integratedtech.in रेली: +91-11-41552579, CTN: L31909DL1995PLC277178

34वीं वार्षिक साधारण राभा, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुरुवक बंद होने की सूचना एत्रदुद्धाः एचित किमा जाता है कि इन्टीगेटेड टेबमोलीजीज लिपिटेड के एटामी की अवी ( बैलीएवी) वार्षिक ए।धार्ष एथा (''एजीएप'') बुधवार, 30 रिजम्बर, 2020 को 900 बजे पूर्वा में छी 24, डिफेन्स कॉलोनी, नई डिल्ली 1 10024 में कम्मने के पंजीकर कार्मलम में आमीजिर की जामेगी जिसमें उसकी सुनना में वर्षित व्यवसामी की निव्यदिर किया

एतद्भाग यह भी एवित किया जाता है कि कम्पनी अधिरियम, 2013 की धार 91 तथा कम्पनी (प्रवेध एवं प्रहारार) रिमपावली, 2014, एपम-एपम पर मधा-एंशोधित के अपूपालय में एडएमों के रिजार्टर तथा कष्मयी की शेमर अंतरप पुरतके 21 फिरम्बर, 2020 से 30 फिरम्बर, 2020 ( दोनों दिवग सिद्धत) तक उपरोक्त एवीएम के उन्हेंस्म में बंद रहेगे कम्पनी की 34वीं एजीएम की एउना एडिए विस् वर्ष 2019-20 के वर्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिमी (वीकर पद्धिर में उनके पंजीकृत पते पर कम्पनी के एभी एटएमों को भेज दी पई है तथा उसकी सफ्ट प्रतिमाँ भी इलेक्ट्रानिक पद्धति में उन एउएमों को भेजी गई है जिनके ईपेल आईडी ज कम्पनी/ डिपॉजिटमें पार्टिएपैन्ट्स के पाम दर्ज है।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) निमम्बदती, 2014, एमम एमम पर मंश्रा एशिधित के निमम 20 तथा सेवी (एवीमन तुमित्व एवं उद्जाटन अपेक्षा ) विनिमयन, 2015, एयम गुपम पर मधा ग्रेहोधित के विनिमयन 44 के एगध पटित कप्पनी अधिनिमर, 2013 की धारा 105 के अनुपार मह कम्पनी उपप्रेवत एतीएम में विकार किमे जाने के लिमे प्रातावित सभी प्रातावी पर पेष्ठपत रिस्क्युरिटीज डिपॉजिटरी लिपिटेड (एपएएडीएल) द्वारा उपलब्ध काएई गयी ई-वीटेंग रिवाओं के पाध्यम हे अपने एउट्से को इतेक्ट्रानिक रूप हे पत्रदान कहने की एविधा उपक्रध कहा ही है।

्युरः एजीएम में मतः पत्र के द्वारा मतदार की एविधा उपलब्ध होगी। जिस रादस्मी ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना पतदान कर दिये हों, ये एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत राज्य तथा पारदर्श तरिके से रिपोर्ट ई जीटिंग प्रक्रिया तथा एवंसिए में मतदार का पर्यवेश्वय करने के लिए स्थ

शालिमी शर्मा, प्राप्तर्रटा, मैं, एस जोशी एंड एलोलिएड्स कम्पनी सेक्रेडरी (एटएमत एं S911, एपि रं [6091] को पर्ययेशक रिमुक्त किया गया है। एभी एट्रामी को एक्ति किमा जाता है कि:

कम्परी की अवीं एतीएम की एउस में वर्णित एश्री साधाएम तथा विशिष्ट कवासमों को इलेक्ट्रॉमिक माध्यमों से

ई-वोटिंग अवधि 27 92020 (900 बजे पूर्वा ) को हुरु होती तथा 2909 2020 (500 बजे अप ) को बंद होगी। हम अविध के द्वैमन कम्पनी के लेग(धारक इलेक्युनिक रूप में अपना पतदान कर एकते हैं। उसके बाद पत्रज्ञ के लिए ई. वीटिंग पद्धति विश्वितम कर है जाएगी। iii) कर-अफि तिथि: बुधवार, 23 रिक्रप्बर, 2020;

iv) मदि कोई व्यक्ति एंचरा के प्रेमण के बाद कष्परी का होगा अधित कारों है तथा कष्परी का एदएम बरते हैं तथा कर आफ तिथि अर्थात् 23 एररप्या, 2020 को हेमा शारित करते हैं, ये evaling@nadl.co.in पर अस्रीध भेजका, लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त का, सकते हैं अथवा एउएसडीएल से टील फ्री में 1500-222-990 पा सम्पर्क कर सकते हैं। लेकिन, मंद्र सदस्म रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से की पंजीकत है तो अपना मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान लागिन आईडी तथा पागवर्ड का प्रमोग कर एकते हैं:

क) पंपतवार, 29 रिलप्बर, 2020 को (5.00 बजे अप आईएएटी) के बाद रिपेट ई-वोटिए की अनमति

छ) कम्परी की एजीएम में मत पर द्वार मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जमेगी तथा एजीएम में शामिल लेने वाले ऐसे सदस्मों विन्होंने रिपोट ई-वोटिंग इसस अपना पतवान नहीं किये हों, वे एजीएम में पतवान कर सकते

 एमीट ई-वोटिंग द्वारा पतदान कर देने के बाद भी एदाम एजीएम में शामिल हो एकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जामेंसी; तथा

ष) जिए व्यवित का नाम कट-अप्न तिथि अर्थात् बुधवार, 23 रितम्बर, 2020 को एउएमों के एजिएटा अथवा डिपाजिट कि द्वारा प्रविधित लाभभी में स्वापियों के क्रिक्टर में सामिल होगा, वे रिमोर्ट ई वीटिंग के साथ ही साथ एजीएम में मतदान की सुविधा शक्ष करने के लिमे अधिकृत होंगे। कम्पनी की अभी एजीएम की एउना कम्पनी की वेबागईट (www.inlegraledlech.in) तथा एनएएडीएर की वेबसाईट (www.evaling.nsdl.co.in) पर उपलब्ध है, तथा

vii) किसी प्रकार की पूचराच के लिये आप https://www.evating.nsdl.com के डाउरलोड खंड में उपलब्ध एटरमों के तिमें Frequently Asked Questions ((FAQ's) तथा एटरमों के तिमें ई जोटिंग मूजर पैन्युअत

देखें अथवा टील की रम्बर: 1500-200-990 पर एउएएडीएल से एम्पर्क करें। इस्प्रिटेड देक्शोलॉजीज लिमिटेड के लिड

त्थातः नई किस्ती RM1: 03.09.2020 (कम्पनी सिदाब एवं अनुपालन अधिकारी) प्रति: के लिये

नेशक्त सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड पताः मुन्धि में 601, 603, 604, संख्यातल, स्रवा, ए, मीरंग हाजरा, केजी मार्ग, कमीट प्लेग, पर्न् दिल्ली, दिल्ली - 110001 रकाईलाइन फाइमीरियल सर्विरोस प्रा. लि. पताः द्यै १८७ए, १ता तत्, ओखता र्डिट्यित एरिया, फेज-।, पर्र् दिल्ली-110020

# 🚚 🛼 जिन्दल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड CIN: L27205HR2013PLC049963

पंजीकृत कार्यालय: ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार - 125005 (हरियाणा) फोन नं. (01662) 222471-83, फेक्स नं. (01662) 220499 Email Id.: investorcare.jshl@jindalstainless.com,

Website: www.jshlstainless.com

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, \* रेग्युलेशन 29 के अनुसार सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को होगी, जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त हुई तिमाही के बिना अंकेक्षित किए स्टैंडअलॉन व कन्सोलिडोटिड वित्तीय खातों का ऑकलन किया जाएगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jshlstainless.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

www.nseindia.com व www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। कृते जिन्दल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड स्थान : हिसार

(भारतेन्द्र हारीत्) तिथि : 4 सितम्बर, 2020

कम्पनी सचिव

## त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड CIN:L15421UP1932PLC022174

पंजी. कार्याः देवबन्द, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) –247554, कार्पोरेट कार्या. 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेंड टावर्स 15.16, सेक्टर—16ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 ई-मेलः shares@trivenigroup.com, वेबसाइट: www.trivenigroup.com, दरभाष: 91 120 4308000 / फैक्स: 91 120 4311010-11

# 84वीं वार्षिक साधारण सभा तथा ई—वोटिंग की सचना

वार्षिक साधारण बैठक एतदद्वारा सचना प्रदान की जाती है की त्रिवणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्टीज लिमिटेड के सदस्यो

हस्ता.-

(कंपनी सचिव

एम.नं. एफ- 5737

की 84वीं वार्षिक साधारण बैठक, सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य आडियो विज्अल माध्यम (ओवीएएम) द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी साधारण परिपन्न 14/2020 दिनांकित अप्रैल 8, 2020, 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020 तथा 20/2020 दिनांकित मई 5, 2020, एवं सिक्योरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया ("सेबी") द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों जिन्हें संयुक्त रूप से संदर्भित किया गया है (प्रासांगिक परिपन्न) के अनुसार उपरोक्त एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादित करने हेतु आयोजित की जानी तय की गई हैं। सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकें में अथवा https://emeetings.kfintech.com पर लाइव वेब कास्ट देख सके में ।

कम्पनी ने एजीएम की सूचना तथा 2019-20 की वार्षिक रिपॉंट कम्पनी के उन सभी सदस्यों को जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपाजटरीज मागीदार / कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर इस्तांतरण एजेन्ट, केफिन टेक्नोलाजिज प्राईवेट लिमिटेड, ("केफिनटेक") के पास पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रोनिकली ढाक द्वारा 3 सितम्बर, 2020 को पूरा कर लिया है। ये कागजात कम्पनी की वेबसाइट www.trivenigroup.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर क्रमशः तथा केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर डाऊनलोड के लिए

इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग

कंपनीज अधिनियम 2013 की घारा 108 और इसके साथ पठित कम्पनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के संशोधित नियम 20 तथा सेबी (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम सुबना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर केफिनटेक द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग रोवाओं के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम स्थान के अलावा) और एजीएम पर मतदान इलेक्ट्रानिक रूप से अपने वोटों का उपयोग कराने की सुविधा प्रदान करा रही है। इस उदेश्य के लिए विस्तारित प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना के अनुदेशों तथा साथ में केफिनटेक की वेबसाइट i.e https://evoting.kfintech.com में है | सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि :

(क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। (ख) रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 25 सितम्बर, को (प्रात: 10:00 बजे आईएसटी) पर प्रारम्म होगी।

(ग) रिमोट ई—वोटिंग अवधि रविवार, 27 सितम्बर, को (सायं: 5:00 बजे आईएसटी) पर समाप्त होगी। (घ) इलेक्टॉनिक्स माध्यम द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ डेट (दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम पर मतदान) सोमवार, 21 सितंबर, 2020 है। (ह) कोई व्यक्ति जो 28 अगस्त, 2020 के बाद को कम्पनी का सदस्य बना हो तथा कट ऑफ

तिथि यानि 21 सितम्बर, 2020 को शेयरों को घारित करतें हो, ई-वोटिंग करनें के लिए युजर आईडी तथा पासवर्ड एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर प्राप्त कर (च) सदस्यगण नोट करें कि (i) रिमोट ई-बोटिंग के लिये वोटिंग मापांक केफिनटेक द्वारा

रविवार, सितम्बर, 27, 2020 (5.00 बजे आईएसटी) के बाद निरस्त कर दिया जायेगा तथा सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने पर उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी; (ii) जिन सदस्यों नें एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया हो, वो एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर से वोट देने के लिए अधिकत नहीं होंगे (iii) एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑट तिथि को डिपाजटरीज द्वारा बनाये गये सदस्यों की पंजिका / लामदाई स्वामी की सूची में अंकित होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग / एजीम में ई-वोटिंग मतदान करने की सुविधा का हकदार होगा। (छ) एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.trivenigroup.com और Kfintech की

वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। (ज) यदि आपके पास ई—वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न अथवा समस्या है, तो आप केफिनटेक को

evoting@kfintech.com अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-345-4001 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा श्रीमति शोभा आनंद, उप महाप्रबंधक के ई-मेल einward.ris@kfintech.com दूरमाथ-040-67162222 पर एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क कर सकते हैं। एजीएम में वीसी / ओएवीएम द्वारा शामिल होने की प्रक्रिया

करायेगी। ई-वोटिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली लागइन साख साथ में वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए प्रयोग की जा सकती है। एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में वर्णित की गई है। सदस्थमण उस पर https://emeetings.kfintech.com पर "AGM video

कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम की सुविधा प्रदान

conference" को क्लिक कर पहुँच सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है वे एजीएम की सूचना में वर्णित सभी नोट्स को सावधानी पूर्वक, विशेषकर, एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेशों, रिमोट ई-बोटिंग द्वारा वोट देने के तरीके अथवा एजीएम

के दौरान इनस्टा पोल को पढें।

कृते त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड तिथि : 4 सितम्बर, 2020

स्थान : नोएडा, यू,पी.

गीता भल्ला समूह उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

## KARVYIII FINANCE कॉर्पोरेट कार्यालयः कार्वी फाइनोसियल सर्विसेस लि. ७०५/७०६, ७वाँ तल, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, संत डायनेश्वर मार्ग, गुरु नानक हॉस्पीटल के सामने, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051 सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) को अंतरीत सूचना का प्रकाशन एतद्दार। सुचित किया जाता है कि निप्न ऋणभारकों/ गारन्टरों/ पार्टगैजरों ने कार्बी फाइनांसियल सर्विसेस लिपिटेड से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सविधा के

की विधि

# RAM RATNA WIRES LIMITED

रकेर चौराव

(CIN: L31300MH1992PLC067802)

Regd. Office: Ram Ratna House, Oasis Complex, P.B.Marg, Worli, Mumbai 400 013 Tel: +91 - 22 - 2494 9009/ 2492 4144 ◆ Email Id: investorrelations@rrglobal.com ◆ Website: www.rrshramik.com

# EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>™</sup> JUNE, 2020

(₹in lakhs)

STANDALONE CONSOLIDATED Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended **Particulars** 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) Total income from operations (net) 16554.86 125548.28 18248.98 34477.90 144644.03 30014.27 33790.85 39247.95 294.56 1638.04 362.73 1668.84 Net (Loss) / Profit for the period / year before tax (459.39)240.38 (698.32)200.78 Net (Loss) / Profit for the period / year after tax (Share of Owners of the Company) 193.60 184.31 170.78 1444.61 (340.48)1426.30 (461.30)207.07 Total Comprehensive (Loss) / Income for the period / year (Share of Owners of the Company) (28.48)(811.51)204.77 (199.10)(149.94)(808.79)224.65 (144.32)Equity Share Capital 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date 16623.23 16777.30 Basic & Diluted Earnings per share (of ₹ 5/- each) (\*not annualised): 0.88 0.84 (1.55)6.48 (2.10)0.78 0.94 6.57

- Notes:
- 2 The figures for the quarter ended 31<sup>st</sup> March, 2020 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published limited reviewed figures for the quarter and nine months ended 31" December, 2019.
- Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company's website www.rrshramik.com.

For and on behalf of the Board of Directors of

Sd/-Mahendrakumar Kabra

Managing Director

Place : Mumbai Dated: 4<sup>th</sup> September, 2020

तिथि: 05.09.2020 प्राधिकत अधिकारी स्थानः दिल्ली कार्वी फाइनॉसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये

उपरोक्त ऋगभारक (कों)/ अथवा उनके गारन्टर (रों)/ मार्टरीजर (रों) (जो भी लागू हो) को एतद्डारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये राशि का भुगतान करें अन्यथा सरफैसी अभिनियम की भारा 13 की उप-भारा (4) के अंतर्गत 60 दिनों की समाप्ति

के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। पुनः आपका ध्यान सरफैसी अभिनियम की भारा 13 (8) के अंतर्गत आकृष्ट किया जाता है कि यदि बिक्री अथवा

अंतरम के निर्भारित तिथि से पूर्व किसी भी समय यदि आप हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्नेन तथा खर्चे के साथ हमारी देयताओं का भुगतान कर देते हैं तो हम प्रतिभूत परिसप्पत्ति की बिक्री या अंतरण नहीं करेंगे तथा प्रतिभूत परिसप्पत्तियों के अंतरण अथवा बिक्री के लिये हम आगे कोई कार्रवाई

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at it's meeting held on 04" September, 2020.

3 The above is an extract of the detailed format of guarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

RAM RATNA WIRES LIMITED

DIN: 00473310

www.readwhere.com

# का भविष्य बनाना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य : अम्बरीश

राष्ट्रीय एवं अन्य

मानव)। भारतीय परम्परा में किया। अम्ब्रीष क्मार ने बताया गुरू का स्थान सर्वोच्च माना कि विद्यार्थियों के उत्साहवर्धक गया है। आज के कोरोना काल सहयोग ने प्रयासों को निरन्तरता में विद्यार्थियों के साथ-साथ अध्र प्रदान की। फेसबुक लाइव, यापकों के लिए भी यह एक गूगल-मीट एवं यू-ट्यूब के माध बड़ी चुनौतीपूर्ण समय था। यम से शिक्षण कार्य स्वभाविक. विद्यालय में बच्चों को बिना बुलाए सरल एवं अधिकतर बच्चों की कैसे बच्चों को पढ़ाया जाये पहुँच में आ गया। अम्बरीश इस पर सरकार एवं शिकक्षों कुमार द्वारा स्वयं के ई-कंटेंट द्वारा मंथन किया जाने लगा। तैयार किये गये एवं सम्पूर्ण ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी से पूर्व जनपद सहारनपुर के अन्य से ही जुडें अध्यापकों ने मोर्चा उत्कृष्ट शिक्षकों के शैक्षणिक सम्भाला। बनारसी दास इण्टर वीडियो बनवाने में सहयोग कॉलेज के शिक्षक अम्बरीश किया गया। जनपद के इन कुमार विद्यालय की स्वयं की सभी शैक्षाणिक वीडियों को वैब-साइट बनाई गई तथा शैक्षिक जागरूकता समूह यू-टचब, फेसब्क, ट्यूटर, आदि नामक यू-टचब चौनल पर सोशल साइट्स पर पहले से अपलोड किया गया जिससे बनाये गये एकाउन्ट्स को शिक्षण विद्यार्थियों को अधिकाधिक कार्य के लिए संचालित करने लाभ मिल सके। सरकार के लगे। सत्र 2020-21 की विज्ञान द्वारा उन विद्यार्थियों के द् 01 अप्रैल से ही बालक एवं मोबाइल नहीं है के लिए टीवी प्रत्येक विद्यार्थी को टीवी पर के लिए मोबाइल पर सम्पर्क बालिकाओं के अलग–अलग द्वारा शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से करके अवगत कराया गया, जिन सब घरों में आराम कर रहे हैं

(विश्व व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर प्रारम्भ



द्वारा संविदा सफाई कर्मियों

को 30 हजार रूपए मासिक

वेतन देने के निर्णय का स्वागत किया है। हरिद्वार स्थित

संगठन के जिला कार्यालय

सफाई कर्नियों 30 हजार रूपए मासिक देने का

उ.प्र. सरकार का निर्णय सराहनीय कदम : तेशवर

हरिद्वार (विश्व मानव)। कि गत दिनों उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय सफाई मजदूर सरकार द्वारा संविदा सफाई काँग्रेस रजि. ट्रेड यूनियन की कर्मचारियों को 30,000 रूपए बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार मासिक वेतन देने के निर्णय

सराहनीय है। उन्होंने कहा

कि जो भी सरकार सफाई मजदरों के हित में निर्णय लेगी

हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे। तेश्वर ने यह भी कहा

ह्ए सफाई कर्मचारी की मृत्यु

स्वयं मृतक परिवार के घर

पहुच कर एक करोड़ रुपए

की सहायता राशि प्रदान की।

महामंत्री राजेन्द्र श्रमिक ने कहा

कि उत्तराखंड सरकार को भी

विद्यार्थियों से मोबाइल सम्पर्क ऐसे में आपके पास समय ही मार्च से 30 मार्च तक कर सरकार द्वारा चलाये जा स्थापित नहीं को सका उनके नहीं है के उत्तर में उन्होंने ऑनलाइन घर—घर जाकर सम्पर्क किया कहा कि मुझे ईश्वर ने किसी प्रतियोगिता, 31 मार्च से 2 लिए प्रशिक्षित किया गया। इस तथा स्वयं प्रभा –22 एवं दुरदर्शन विशेष प्रयोजन के लिए शिक्षक अपैल तक निबन्ध प्रतियोगिता, वर्ष जनपद स्तर से अम्बरीश उप्र पर प्रसारित हाने वाले बनाया है। विद्यार्थियों का भविष्य 3 से 5 अपैल तक कुमार का चयन राष्ट्रीय अध शैक्षाणिक वीडियो की बनाना ही मेरे जीवन का संगीत-गायन प्रतियोगिता, 6 यापक पुरस्कार के लिए किया समय-सारणी के बारे में एकमात्र उद्देश्य है। माध्यमिक से 8 अपैल तक स्लोगन गया जिसके निर्णायक मण्डल विद्यार्थियों को अवगत कराया। शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के प्रतियोगिता, 9 से 11 अपैल में जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बरीश कुमार ने बताया कि लिए ई-लर्निंग (स्वयंप्रभाध तक प्रतिदर्श प्रतियोगिता, 12 एडी (बेसिक), जिलाधिकारी शिक्षक सं डिजिटल शिक्षक यूट्यूब) हेतु शैक्षिक वीडियो से 14 अपैल तक भाषण प्रतिनिधि प्राचार्य जेवी जैन बनने का सफर थोडा–कठिन उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट प्रतियोगिता का आयोजन कॉलेज एवं बेसिक शिक्षा अधि परिश्रमी जरूर रहा, कई बार वीडियो निर्माण का कार्य किया किया गया जिसमें जिले के ाकारी शामिल रहे। इसी वर्ष प्री-प्री रात जागकर है। इनके द्वारा निर्मित वीडियो सरकारी, सहायता प्राप्त एवं जिलाधिकारी, जिला विद्यालय विद्यार्थियों के लिए अगले दिन का चयन राज्य स्तरीय समिति वित्तविहीन विद्यालयों के बच्चों निरीक्षक, एसडीएम देवबन्द, पढाने वाले ई-कंटेंट तैयार द्वारा संस्तुत कर टी.वी. पर ने प्रतिभाग किया। ०४ व ०५ डायट प्राचार्य, एवं प्रधानाचार्य किये गये, परन्तु इतनी व्यस्तता प्रसारित करने हेतु प्रेषित किया अगस्त 2020 को जनपद के राजकीय इण्टर कॉलेज के में भी कभी थकान का एहसास गया है। साथ ही इनके द्वारा समस्त प्रधानाचार्यों को निर्णायक मण्डल द्वारा राज्य नहीं हुआ। उसका कारण मात्र जनपद से कुल 44 प्रकरणों गूगल-मीट एप्लीकेशन के माध्य अध्यापक पुरस्कार के लिए इतना था कि विद्यार्थियों द्वारा पर विभिन्न शिक्षकों के 69 यम से ई—लर्निंग कार्यशाला जनपद स्तर से इनका चयन सकारात्मकता के साथ वीडियो बनवाने में अपना के आयोजन में मुख्य प्रशिक्षक किया गया। अम्बरीश कुमार डिजिटल शिक्षा को अपनाया सराहनीय योगदान दिया गया। एवं मीटिंग संचालक का जैसे शिक्षकों की आज समाज गया। जब उनसे प्रश्न किया अम्बरीश कुमार द्वारा जनपद दायित्व निर्वहन किया। इनके को आवश्यकता है जो गया कि परिवार के लोगों ने स्तर पर लॉकडाउन काल में द्वारा 26 व 27 अगस्त 2020 दिन–रात समर्पण भाव से कहा नहीं कि लॉकडाउन में ''कोरोना को हराना है भारत को जनपद के समस्त शिक्षकों विद्यार्थियों के हित में कार्य

से भगाना है'' विषय पर 27 के लिए वेबनार का आयोजन करते रहते हैं।

चित्रकला रहे ई-ज्ञान गंगा कार्यक्रम के



#### पर आयोजित बैटक को कि इससे पूर्व कि अखिलेश सम्बोधित करते हुए अखिल सरकार ने भी संविदा सफाई भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कर्मियों का 18000-19000 शाखा उत्तराखंड के प्रदेश प्रति माह वेतन किया था। अध्यक्ष सुरेंद्र तेशवर ने कहा उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की भी इस बात के कोरोना उपचाराधीनों के मददगार बने मोबाइल एप : सीएमओ लिए तारीफ की कि कोविड–19

वैश्विक महामारी में कार्य करते उपचार में एप से मिल रही स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हो गई थी। मृतक के परिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा

मानव)। राज्य सरकार ने ऐसे गया है। यह एप हैं होम कोरोना से बचाव और सावध किया गया है। यह उपचाराध कोविड—19 उपचाराधीन जो आइसोलेशन एप और आयुष ाानियों के बारे में जानकारी ीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता होम आइसोलेशन में हैं, उनके कवच एप। इन्हें हाँम चाहते हैं, तो ले सकते हैं। को मजबूत करने में मदद संगठन के प्रदेश कार्यवाहक लिए मोबाइल एप लांच किए आइसोलेशन में रहने वाले पंजीकरण के बाद इस एप में करता है। इस एप के माध्यम अध्यक्ष अशोक तेश्वर व प्रदेश हैं। यह एप उपचार के व्यक्ति को अपने मोबाइल में हर दो-तीन घंटे में उपचाराध् से योग से जुड़े टिप्स भी साथ—साथ रोग प्रतिरोधक आरोग्य सेतु एप के साथ ीन के ऑक्सीजन के लेवल मिलते हैं। साथ ही शरीर की क्षमता बढ़ाने में भी उपचाराध डाउनलोड करना जरूरी है। की जानकारी फीड करनी होती प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने उत्तर प्रदेश व दिल्ली सरकार ीनों की मदद कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने है, जिससे स्टेट कंट्रोल रूम के लिए घरेलू नुस्खों की का अनुशरण करते हुए प्रदेश ट्रैं किंग, उपचार और बताया यह एप उत्तर प्रदेश में उपचाराधीन की स्थिति की जानकारी भी मिलती है। एप के सफाई कर्मियों को भी वो जागरूकता के लिए आधुनिक सरकार के स्वास्थ्य एवं निगरानी हो सके। इसके साथ से अलग-अलग आयु वर्ग के समस्त सुविधाएं शीघ्र देने की तकनीक का इस्तेमाल किया चिकित्सा विभाग की ओर से ही इस एप को डाउनलोड लोगों के लिए अलग—अलग बैठक में मांग की। बैठक में जा रहा है। इसके साथ ही लांच किया गया है। इसे गूगल करने के बाद कंट्रोल रूम में लाइव योग सेशन की भी सुविध आनन्द कांगड़ा, राजेश छाछर इन एप के माध्यम से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया उपचाराधीन की गतिविधियों ।। है। साथ ही कोरोना से संजय आदि मौजूद रहे। बैठक

लॉन्च किये हैं और इन्हें गाइड दर्ज करना होता है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के

(विश्व लाइन में भी शामिल कर लिया पंजीकरण से पहले यदि आप आयुष विभाग की ओर से लांच मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जा सकता है। इसमें कोरोना की भी खबर रहती है। इस बचाव के लिए खास एवं की अध्यक्षता शाखा हरिद्वार उक्त जानकारी देते हुए उपचाराधीन को अपना एप के माध्यम से उपचाराधीन सामान्य तरीकों की जानकारी के अध्यक्ष आत्माराम बेनीवाल थ्य चिकित्सा अधिकारी ड. पंजीकरण कराना होता है। को कोरोना वायरस नहीं है मिलती है। बी. एस. सोढी ने बताया होम पंजीकरण के दौरान अपने या हल्के लक्षण हैं उसके आइसोलेशन शुरू होने के बाद मोबाइल नंबर से वन टाइम हिसाब से दवा के शेडचूल उपचाराधीन को इलाज में मदद पासवर्ड (ओटीपी) देना होता को लेकर भी अपडेट मिलता के लिए भी शासन ने एप है। इसके साथ ही पूरा पता रहता है। उन्होंने बताया कि

पैरोल कैदी का अधिकार नहीं, खतरनाक नयी दिल्ली (वार्ता)। सलाह लेने को कहा है। इस निर्देशों के आधार पर समीक्षा



लागू करने तथा पैरोल के मंत्रालय, विशेषज्ञों की एक समिति की उच्चतम न्यायालय के दिशा था।

कोरोना महामारी के कारण समिति संबंधित विभागों के की जानी चाहिए। मंत्रालय पैरोल पर रिहा कैदियों द्वारा अधिकारी तथा मनोचिकित्सक ने कहा है कि रिहायी या देश के विभिन्न हिस्सों में किये और परामर्शदाता आदि शामिल पैरोल का निर्णय लिये जाने जा रहे अपराधों को गंभीरता होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि से पहले सावधानी और से लेते हुए केन्द्रीय गृह कैदियों को पैरोल पर छोड़ा समग्रता के साथ प्रत्येक मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र जाना किसी कैदी का अधिकार मामले की व्यापक जांच की शासित प्रदेशों से कहा है कि नहीं है और यह एक तरह की जानी चाहिए। पत्र में यह आतंकवादी घटनाओं और छुट या रियायत होती है। भी कहा गया है कि छोडे घृणित अपराधों तथा हत्या के इसके बारे में निर्णय योग्यता गये कैदियों के व्यववहार मामलों से संबंधित कैदियों को तथा नियमों के आधार पर की निगरानी भी की जानी यह छूट नहीं दी जानी चाहिए। लिया जाना चाहिए। पत्र में चाहिए। मंत्रालय ने सभी मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र राज्यों से कहा गया है कि राज्यों से इस बारे में शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों कैदियों को पैरोल पर रिहा अनुपालन रिपोर्ट देने को भी तथा पुलिस महानिदेशकों और करने या किसी कैदी को कहा है। उल्लेखनीय है कि जेल महानिदेशकों को आज सदाचार के आधार पर सजा कोरोना के कारण जेलों से पत्र लिखकर कैदियों को पैरोल पूरी होने से पहले रिहा पैरोल पर छोड़े गये कैदियों पर छोड़े जाने के नियमों और करने के मौजूदा तरीकों की द्वारा देश भर में अपराध दिशा निर्देशों को सख्ती से जेल मैनुअल 2016 तथा करने की रिपोर्ट आने के

# राष्ट्रीय बाद इस बारे में कदम उठाने बारे में निर्णय लेने के लिए मानवाधिकार आयोग और पर विचार किया जा रहा

(वार्ता)। वैयक्तिक एवं सामाजिक से लेकर उच्च शिक्षा की प्रणाली उदाहरण मौजूद हैं जहां को आशाएं हैं, जिसे वे उपलब्धियों के आधार पर स्वर्ण

मध्यप्रदेश की राज्येपाल एवं उद्देश्यों में समन्वय स्थापित में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये बड़े—बड़े संकटों एवं चुनौतियों अनुशासन, सदाचार, दृढ़ता, पदक प्रदान किये गये, जिसमें कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन कर उसे अपने जीवन के लक्ष्यों गये हैं। रनातक स्तर पर के बाद सामाजिक, आर्थिक सामाजिक लगाव एवं संस्था से 21 छात्राएं एवं 6 छात्र पटेल ने आज शिक्षा से व्यक्ति का चयन करने एवं हासिल महत्वपूर्ण सुधार करते हुए तीन और राष्ट्र पुनर्निर्माण का कार्य तथा देश के प्रति प्रतिबद्धता हैं। राज्यपाल ने कहा कि में समाज बोध कहा विकास करने के लिए प्रेरणा प्रदान अथवा चार वर्ष के स्नातक नई ऊर्जा के साथ किया गया। जैसे गुणों के विकास के हमारी बेटियों की सहभागिता होता है, समाज के सभी अंगों करती है। उन्होंने नई शिक्षा कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कई राज्यपाल ने युवा छात्रों की माध्यम<sup>ें</sup>से पूरा कर सकते एवं परिश्रम का परिणाम है के प्रति आदर, समन्वय एवं नीति की महत्ता पर प्रकाश स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ने का ओर इशारा करते हुए कहा हैं। राज्यपाल ने दीक्षांत कि उन्होंने अधिक मेडल प्राप्त सहयोग की भावना को डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्रावधान किया गया है। इससे कि हमारा विशाल देश, युवा समारोह में कला, सामाजिक किए। उन्होंने कहा कि आने आत्मसात करता है। श्रीमती शिक्षा नीति—2020 की विद्यार्थी अपनी सुविधा एवं रुचि शक्ति से भरा हुआ देश हैं। विज्ञान, जीव विज्ञान, विधि, वाले दिनों में हमें इसके बरकतउल्ला संकल्पना समाज की के अनुसार उपाधि प्राप्त कर आत्मनिर्भरता को दिल और वाणिज्य, शिक्षा, गृह विज्ञान सकारात्मक परिणाम देखने विश्वविद्यालय. भोपाल के आवश्यकता तथा विद्यार्थियों जीवन में विकल्प चुन सकेंगे। दिमाग में बैठा लें। एवं प्रबंध संकाय के 62 को मिलेंगे। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह को राजभवन, की रचनात्मक सोच, तार्किकता उन्होंने कहा कि आज का आत्मिनर्भरता के खुद प्रयास पंजीकृत विद्यार्थियाँ को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा लखनऊ से वीडियो कान्फ्रोंसिंग एवं नवाचार की भावना पर यह दौर हम सभी के लिए करें और दूसरों के प्रयासों पीएचडी की ई—उपाधि प्रदान मंत्री 👅 ा. मोहन यादव, के माध्यम से सम्बोधित करते आधारित है। उन्होंने कहा कि कठिन है। हमारे युवाओं की में मदद करें। यही विकास की। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हुए यह बात कही। उन्होंने नई शिक्षा नीति में भारत की किवनाई तो और भी गंभीर को नई गित, नई ऊर्जा देगा। उपाधि एवं पदक प्राप्त करने के अध्यक्ष प्रो. धीरेन्द्र पाल कहा कि व्यक्ति को पूर्णता परम्परा, विरासत, सांस्कृतिक दिखाई देती है। आवश्यक है राज्यपाल ने छात्रों का वाले विद्यार्थियों को बधाई सिंह, विश्वविद्यालय के प्रदान कर एक जागरूक मूल्यों एवं तकनीकी ज्ञान तथा कि अपने सपनों को पूरा करने आहवान करते हुए कहा कि देते हुए कहा कि हमारे युवा कुलपित प्रो. आर. जे. राव नागरिक बनाने में शिक्षा का कौशल विकास में समन्वय के प्रयासों में सभी युवा निरंतर वे प्रदेश एवं देश के विकास शोध के क्षेत्र में निरंतर प्रगति तथा कुल सचिव अजित महत्वपूर्ण योगदान है। सही स्थापित करने का सफल प्रयास जुटे रहें। हमारे देश के में अपनी सकारात्मक भूमिका कर रहे हैं। दीक्षांत में 27 श्रीवास्तव भी आनलाइन जुड़े

एवं सार्थक शिक्षा व्यक्ति के किया गया है। प्राथमिक शिक्षा इतिहास मं , ऐसे प्रेरक सुनिश्चित करें। उनसे राष्ट्र विद्यार्थिया` को उनकी हुए थे।



# किया

मानव)। किसानों की विभन्न के कार्यकर्ता एकत्र होकर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन समस्याओं को लेकर अनेक भगत सिंह चौक पर पहुंचे किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों संगठनों ने नारेबाजी कर तथा नारेबाजी कर विधायकों में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश प्रदर्शन किया तथा विधायकों के पुतले को आग के हवाले का पुतला फूंकने के बाद कर दिया। प्रदर्शनकारियों का बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश महामहिम राष्ट्रपति को कहना था कि किसानों की सम्बोधित ज्ञापन सिटी वोट से चुनकर विधानसभाओं मुस्लिम मोर्चा के जिला अध मजिस्ट्रेट को सौंपकर में चूप बैठे देश के तमाम विध्यक्ष नसीर अहमद, चमार समस्याओं का समाधान ाायकों किसानों की समस्याओं वाल्मीकि महासंघ के जिला कराने की मांग की। बामसेफ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष भानपाल सिंह रिव, के आपसूट संगठन राष्ट्रीय जिस कारण अन्नदाता किसान युवा महानगर अध्यक्ष जितेंद्र किसान मोर्चा एवं उनका आर्थिक रूप से काफी परेशान तेश्वर, संजीव बाबा, रविंद्र साथ सहयोग कर बहुजन है जिसे हमारे संगठन बर्दाश्त कुमार ,रफल पाल, बलवंत क्रांति मोर्चा, बहुजन मृक्ति नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार सिंह सैनी, अरविंद कुमार, पार्टी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, को चेतावनी देते हुए यदि आशीष कुमार, काजल देवी, राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला अन्नदाता किसान की सरोज पाल सिंह, आदि

(विश्व संघ, चमार वाल्मीकि महासंघ ने ध्यान नहीं दिया तो पूरे

अध्यक्षे संजय मूल निवासी, संयोजक भंवर सिंह, राष्ट्रीय

#### त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड CIN:L15421UP1932PLC022174

पंजी, कार्वा: देवनन्, जिला सहारनपुर (उठर प्रदेश) –३४८७५४, कार्यारेट कार्या: क्ष्मी मंजिल, एक्सफ्रेस ट्रेंड टाक्स 15.18, सेक्टर-18ए, नोएडा, उठार प्रदेश-201301 ई-मेल: shares@trivenigroup.com, वेबसाइट: www.trivenigroup.com, दुरमाथ: 91 120 4308000 / कैवस: 91 120 4311010-11

#### 84वीं वार्षिक साधारण सभा तथा ई-वोटिंग की सूचना वार्षिक सामारण वैतक

एतव्हारा सूचना प्रदान की जाती हैं की जिनमी इंजीनियरिंग एम्ब इम्बरद्रीज लिमिटेब के सदस्य की 84वीं वार्षिक साधारण बैठक, सोमवार, 28 सितन्बर, 2020 को प्रात: 11,00 को (आईएसटी विकियो कॉन्केसिंग (वीसी)/अन्य आकियो किनुअल मध्यम (ओबीएएम) द्वारा कारपोरेट कर मंत्रालव ("एमसीए") द्वारा जारी साधारण परियत्र 14/2020 दिनांकित उन्हेंल 8, 2020, 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020 तथा 20/2020 दिनांकित नई 5, 2020, एवं सिक्योरिटील एक्सवेन्ज बोर्ड ऑफ इंग्डिया ("सेबी") द्वारा जारी अन्य लागू परिपर्ज जिन्हें संयुक्त रूप से संदर्भित किया गया है (प्रावाधिक परिपत्र) के अनुवार उपरोक्त एजीएम की बूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादित करने हेतु आयोजित की जानी तय की नई हैं। तभी सदस्व वीसी/ओएबीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकेंगें अथवा https://emeetings.kfintech.com पर लाइव वेब कास्ट देख सकेंगें।

कम्पनी ने एजीएम की सूचना तथा 2019-20 की वार्षिक रिपॉट कम्पनी के उन सभी सदस्यों की जिनके ईमेल वर्त कम्पनी/विपाजदरीज भागीदार/कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड होवर हस्तांतर एजेन्ट, केफिन टेक्नोलाजिज प्राईवेट लिमिटेड, ("केफिनटेक") के पास पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रोनिकली डाक द्वारा 3 मितम्बर, 2020 को पूरा कर लिया है। ये कागजात कम्पनी की वेबसाहट www.trivenigroup.com तथा स्टॉक एक्सबेंजों की वेबसाहट बीएसई लिमिटेंड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंग्डिया लिमिटेड www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर क्रमशः तथा केषिनटेक की वेबसाइट https://eveting.kfintech.com पर बाळनलोड के लिए

इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा बोटिंग कंपनील अधिनियम 2013 की धारा 108 और इसके साथ परित कन्पनील (प्रबंधन तथा प्रशासन नियम 2014 के संशोधित नियम 20 तथा सेवी (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) वं विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएन सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर केष्ठिनटैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम स्थान के बलावा) और एजीएम पर मतदान इलेक्ट्रानिक रूप से अपने बोटों का उपयोग कराने की सुविधा प्रदान करा रही है। इस सदेश्य के लिए विस्तारित प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना के अनुदेशों तथा साथ में केफिनटेक की वेबसाइट i.e https://evoting.kfintech.com में हैं । सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि : (क) एजीएम के नोटिश में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान के महत्वम र

निष्पदित किया जा सकता है। (ख) स्थिट ई-वेटिंग अवधि शुक्रवार, 25 सितम्बर, को (प्रातः 1000 करें आईएसटी) पर प्रारम्भ होगी। (ग) रिबोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 27 सितम्बर, को (सार्थ: 500 को आईएसटी) पर समान्त होगी। (घ) इलेक्ट्रॉनिक्स मध्यम द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ डेट (बुरुख ई-बोटिंग और एजीएन पर मतदान) शोमबार, 21 शितंबर, 2020 है।

(द) कोई व्यक्ति जो 28 अगस्त. 2020 के बाद को कन्यनी का सदस्य बना हो तथा कट ऑफ तिथि यानि 21 सितम्बर, 2020 को शेवचें को धारित करतें हो, ई—वोटिंग करनें के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड एजीएन की सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर प्राप्त कर

(च) रावश्यागण नीट करें कि () रियोट ई-बोटिंग के जिमे बोटिंग गामांक केंफिनटेक द्वारा रविवार, सितम्बर, 27, 2020 (5.00 को आईएसटी) के बाद निरस्त कर दिवा जावेगा तथा सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने पर समे बाद ने बदलने की अनुमति नहीं होनी; (ii) जिन कदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया हो. वो एजीएन में चपरिवत हो शकते हैं. लेकिन किर से बोट देने के लिए अधिकृत नहीं होंने (बं) एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑट तिथि को दिपालटरीज द्वारा बनाये गर्व सदस्यों की विका ∕ लामदाई स्वामी की सूची में अंकित होगा, कंवल वही रिमोट ई—वोटिंग ∕ एवीम में ई-बोटिंग मतदान करने की सुनिधा का हकदार होगा।

(अ) एजीएन का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.trivenigroup.com और Klintech के केक्साइट https://expting.kfintech.com पर भी जपलका है।

 (ज) यदि आपके पास ई—बोटिंग के बारे में कोई प्रश्न अथवा समस्या है, तो आप केफिनटेक को evoting@kfintech.com अथवा टील की नम्बर 1800-345-4001 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा श्रीनरि शोमा आनंद, उप महाप्रबंधक के ईं-मेल einward.ris@kfintech.com दुरभाष-040-67162222 पर एथीएन के दिन ई-वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित किसी मी शिकायत के लिए संपर्क कर सकते हैं।

एजीएन में नीची / ओएनीएन हाना शानिज होने की प्रक्रिया कम्पनी अपने सवस्यों को एजीएन में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएन की स्विधा प्रवान करावेगी। ई-वोटिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली लागइन साख साथ में वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएन में भाग लेने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। एजीएन में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएन की शूचना में वर्णित की नई है। सदस्यनम क्या पर https://emeetings.kfintech.com पर "AGM video conference" को लिलक कर पहुँन राक्तो है। सदस्यों से अनुरोध है वे एथीएम की सूचना में क्षित सभी नोट्स को सावधानी मूर्वक, विजेषकर,

एजीएन में भाग लेने के लिए अनुदेशों, रिमोट ई-बोटिंग हारा वोट देने के वरीके अधवा एजीएन के दौरान इनस्टा चोल को पर्दे ।

तिथि : 4 सितम्बर, 2020

हस्ता./-समूह उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

क्ते त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड